



प्रेसनोट थाना छत्ता जनपद आगरा ।

थाना छत्ता पुलिस टीम द्वारा रू0 20,000/- के वांछित इनामी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार...

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा के आदेशानुसार तथा क्षेत्र में चोरी/लूट, डकैती, अवैध शराब की तस्करी करने व परिवहन, निर्माण आदि अपराधों की पूर्ण रोकथाम एवं इनामी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में, क्षेत्राधिकारी छत्ता के सफल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी छत्ता को टीम गठित कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

इसी क्रमानुसार दिनांक 04.07.2021 को गठित पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति/वाहन हेतु थाना क्षेत्र में चैकिंग की जा रही थी। चैकिंग के दौरान मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गयी कि थाना छत्ता में पंजीकृत अभियोग में वांछित इनामी अभियुक्त रमेश चन्द्र यादव कहीं जाने की फिराक में इस समय वाटरवर्क्स चौराहे पर खड़ा हुआ है। यदि जल्दी की जाये तो गिरफ्तार किया जा सकता है।

➤ पुलिस टीम द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण :-

मुखबिर द्वारा प्राप्त उपरोक्त सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम तत्काल बताये स्थान पर पहुंचकर चारों ओर से घेर-घोट कर एक बारगी दबिश देते हुए इनामी अभियुक्त रमेश चन्द यादव को वाटर वर्क्स चौराहे से गिरफ्तार कर लिया गया।

➤ पूछताछ का विवरण :-

पुलिस टीम द्वारा पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मेरा नाम रमेश चन्द यादव पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी पुठिया मीरपुर थाना जसवन्त नगर जनपद इटावा है। पुलिस टीम द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर बताया कि मेरे पुत्र जीतू उर्फ जितेन्द्र उर्फ हर्ष यादव ने 10 लाख रुपये की सुपारी लेकर कपिल पवार उर्फ के0पी0 यश का अपहरण करके उसकी कार लूट ली थी एवं हत्या कर कपिल का शव नहर में फेक दिया था। सुपारी के 10 लाख रुपये में से 01 लाख रुपये देवेन्द्र वर्मा पुत्र प्रयाग सिंह निवासी स्टेशन रोड़ यमुना ब्रिज थाना एत्मादौला जनपद आगरा के खाते में मंगवाये थे। घटना के बाद मेरे पुत्र जीतू ने सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर व एलईडी मुझे साक्ष्य मिताने के लिये के दिये थे, जिन्हें मैंने उसी वक्त पेट्रोल डालकर जला दिया था। इस सम्बन्ध में थाना छत्ता पर मु0अ0सं0 216/20 धारा 364/302/201/392/411/120बी भादवि





पंजीकृत किया गया था। मुकद्दमा उपरोक्त से सम्बन्धित 07 अभियुक्तों को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

विशेष :- श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा द्वारा अभियुक्त रमेश चन्द्र यादव उपरोक्त पर पूर्व में रू0 20,000/- का इनाम घोषित किया गया था।

➤ गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :-

01. रमेश चन्द यादव पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी पुठिया मीरपुर थाना जसवन्त नगर जनपद इटावा।

➤ गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

01. प्रभारी निरीक्षक श्री राजकमल सिंह थाना छत्ता जनपद आगरा।
02. उ0नि0 श्री सुनील कुमार थाना छत्ता जनपद आगरा।
03. उ0नि0 श्री योगेश कुमार थाना छत्ता जनपद आगरा।
04. उ0नि0 श्री मांगेराम थाना छत्ता जनपद आगरा।
05. कां0 संदीप कुमार थाना छत्ता जनपद आगरा।

मीडिया सेल जनपद आगरा।